

प्रेस कान्फ्रेंस/सराहनीय कार्य दिनांक 24.01.2023 2

जनपदीय एस0ओ0जी0/सर्विलांस एवं थाना इटवा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन तमंचा 2.0 अभियान के तहत अवैध शस्त्र के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद नाजायज देशी रिवाल्वर, 01 अदद मोटर साइकिल, 04 अदद मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर व पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती के द्वारा चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन तमंचा 2.0" के तहत कार्यवाही के क्रम में पुलिस टीम को कुछ व्यक्तियों के द्वारा फेसबुक स्टेटस में तमंचा लगाये फोटो की सूचना थी । संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में पुलिस टीम लगी थी जिसमें अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक इटवा के नेतृत्व में मय हमराही कर्मचारीगण के मदद से सूचना संकलन के आधार पर 1.सुरजीत चौधरी पुत्र शिवबहादुर निवासी दरियापुर जंगल सोनहा जनपद बस्ती 2.अविनाश चौधरी पुत्र विमलेश चौधरी निवासी अमौली एकडेगवा थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर 3.सुनील चौधरी पुत्र राधेश्याम चौधरी निवासी भूतहिया थाना ढेवरुआ जनपद सिद्धार्थनगर 4.विशाल चौधरी पुत्र नरायण चौधरी निवासी जोगिया बुजुर्ग थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर को हिरासत पुलिस में लेकर पूछ-ताछ करते हुए जामा तलासी लिया गया तो अभियुक्त सुरजीत के कब्जे से एक नाजायज देशी रिवाल्वर, 01 अदद मोटर साइकिल व अविनाश, सुनील एवं विशाल के मोबाइल फोन में उनके द्वारा अवैध असलहों के खींची गयी फोटो मिली जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग अजय सिंह से अवैध असलहा लेते हैं और मुंबई तथा अन्य जगहों पर बेचते हैं । उनके कब्जे से 04 अदद मोबाइल, ₹11980/-सहित विदेशी मुद्राये व 04 एटीएम कार्ड, मोबाइल चिप, आधार कार्ड, श्रम कार्ड, पैन कार्ड, गैस कार्ड बरामद हुआ । उनके द्वारा मुंबई एवं बस्ती में भी असलहा बेचना बताया गया है । जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है । बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना इटवा पर मु0अ0सं0 11/2023 धारा 3/25(7)(8) आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण उपरोक्त का चालान कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है ।

पुलिस टीम की पूछ-ताछ का विवरण-

पुलिस टीम की पूछ-ताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम सभी लोग अजय सिंह से करमैनी घाट से असलहा खरीदते हैं । उन अवैध असलहो की फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं । ग्राहक द्वारा पसंद आ जाने पर तीस से चालीस हजार में बेच देते हैं और उन पैसों से अपने शौक पूरा करते हैं । उनके द्वारा मुंबई एवं बस्ती में भी असलहा बेचना बताया गया है ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय का विवरण-

बरगदवा भनवापुर मार्ग से पिपरा पाण्डेय ग्राम की सड़क पुलिया, 23-01-2023 17:30 बजे ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.सुरजीत चौधरी पुत्र शिवबहादुर निवासी दरियापुर जंगल सोनहा जनपद बस्ती
- 2.अविनाश चौधरी पुत्र विमलेश चौधरी निवासी अमौली एकडेगवा थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3.सुनील चौधरी पुत्र राधेश्याम चौधरी निवासी भूतहिया थाना ढेवरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4.विशाल चौधरी पुत्र नरायण चौधरी निवासी जोगिया बुजुर्ग थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।

वांछित अभियुक्त का नाम पता विवरण-

अजय सिंह पुत्र अम्बिका सिंह निवासी वरतुआ थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीरनगर हालमुकाम गोरगढ़ थाना शिवनगर डिडई जनपद सिद्धार्थनगर ।

बरामदगी का विवरण-

- 1- 01 अदद नाजायाज देशी रिवाल्वर ।
- 2- 01 अदद मोटर साइकिल सुजुकी जिक्सर वाहन संख्या UP53 DY 2191
- 3- 04 अदद मोबाईल ।
- 4- ₹ 11,980/- भारतीय मुद्रा साथ अलग अलग विदेशी मुद्राये ।
- 5- 04 एटीएम कार्ड, मोबाइल चिप, आधार कार्ड, श्रम कार्ड, पैन कार्ड, गैस कार्ड इत्यादि ।

अजय सिंह का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0- 305/19 धारा 307 भा0द0वि0 थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2- मु0अ0सं0- 306/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3- मु0अ0सं0- 308/19 धारा 379, 411 भा0द0वि0 थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4- मु0अ0सं0- 259/19 धारा 392, 411 भा0द0वि0 थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 5- मु0अ0सं0- 102/19 धारा 379, 411, 413 भा0द0वि0 थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 6- मु0अ0सं0- 167/19 धारा 174A भा0द0वि0 थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 7- मु0अ0सं0- 373/05 धारा 392 भा0द0वि0 थाना गोला जनपद गोरखपुर ।
- 8- मु0अ0सं0- 268/06 धारा 356,392,411,413,414 भा0द0वि0 थाना झंगहा जनपद गोरखपुर ।
- 9- मु0अ0सं0- 501/06 धारा 392,411 भा0द0वि0 थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर ।
- 10- मु0अ0सं0- 348/05 धारा 392,411 भा0द0वि0 थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर ।
- 11- मु0अ0सं0- 344/13 धारा 392,411 भा0द0वि0 थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर ।
- 12- मु0अ0सं0- 263/06 धारा 392 भा0द0वि0 थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर ।
- 13- मु0अ0सं0- 556/21 धारा 379, 411, 120B भा0द0वि0 थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर ।
- 14- मु0अ0सं0- 29/12 धारा 394,511 भा0द0वि0 थाना उरूवा बाजार जनपद गोरखपुर ।
- 15- मु0अ0सं0- 817/13 धारा 379 भा0द0वि0 थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर ।
- 16- मु0अ0सं0- 49/13 धारा 307,394,401 भा0द0वि0 थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर ।
- 17- मु0अ0सं0- 51/13 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर ।
- 18- मु0अ0सं0- 295/13 धारा 392,356 भा0द0वि0 थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर ।
- 19- मु0अ0सं0- 149/13 धारा 379,411 भा0द0वि0 थाना खजनी जनपद गोरखपुर ।
- 20- मु0अ0सं0- 191/13 धारा 392,356,411 भा0द0वि0 थाना खजनी जनपद गोरखपुर ।
- 21- मु0अ0सं0- 857/05 धारा 392,411 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद सन्तकबीर नगर ।
- 22- मु0अ0सं0- 498/07 धारा 147,148,307 भा0द0वि0 थाना बस्ती जनपद बस्ती ।
- 23- मु0अ0सं0- 634/07 धारा 143,352,427,506 भा0द0वि0 थाना बस्ती जनपद बस्ती ।
- 24- मु0अ0सं0- 291/09 धारा 392,411,120B भा0द0वि0 थाना नगर जनपद बस्ती ।
- 25- मु0अ0सं0- 325/09 धारा 307 भा0द0वि0 थाना नगर जनपद बस्ती ।
- 26- मु0अ0सं0- 327/09 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नगर जनपद बस्ती ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

- 1- बिन्देश्वरी मणि त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक इटवा जनपद सिद्धार्थनगर मय टीम ।
- 2- उ0नि0 जीवन त्रिपाठी, प्रभारी एस0ओ0जी0 जनपद सिद्धार्थनगर ।

2- उ0नि0 मोती लाल, थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ।

3- मु0आ0 रमेश यादव, मु0आ0 अवनीश सिंह एस0ओ0जी0 जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 24-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर ।

आज दिनांक 24-01-2023 को आगामी 26 जनवरी/गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर होने वाली भव्य रैतिक परेड समारोह के परिपेक्ष्य में पुलिस लाइन्स सिद्धार्थनगर के परेड ग्राउंड पर जनपद के पुलिस अधिकारी/ कर्मचारीगण द्वारा फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल किया गया । अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल का जायजा लिया गया तथा परेड में शामिल होने वाली टुकड़ियों और पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 24-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर ।

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व रुपये 15,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 24-01-2023 को सत्र परीक्षण सं. 74/2015 मु.अ.सं. 1251/2014 धारा 498A, 304B भा0द0वि0 व 3/4 डी.पी.एक्ट थाना उसका बाजार से सम्बन्धित आरोपी को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया । उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त आशीष पाण्डेय पुत्र वीरेन्द्र नाथ पाण्डेय निवासी ग्राम महुलानी थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को माननीय न्यायाधीश श्री कामेश शुक्ल, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 सिद्धार्थनगर द्वारा दोषी करार देते हुये 10 वर्ष के कारावास तथा 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । जिसमें सरकार की तरफ से पैरवी राजेश कुमार त्रिपाठी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार हे0का0 राजू वर्मा, थाना उसका बाजार का सराहनीय योगदान रहा ।

प्रेस नोट दिनांक 24-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर ।

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करने व गैर इरादतन हत्या के प्रयत्न के आरोपित को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹ 34,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 24-01-2023 को जनपद सिद्धार्थनगर के थाना मिश्रौलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 11/2018 धारा 316/34,452,308/34,323/34,504,506(2) भा0द0वि0 से सम्बन्धित तुलसीराम पुत्र चिनक निवासी ग्राम गैसड़ा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर को प्रभावी पैरवी कर दण्डित कराया गया । उक्त अभियोग से संबंधित उपरोक्त अभियुक्त को माननीय न्यायाधीश मो0 शफीक, अपर सत्र न्यायाधीश बांसी, सिद्धार्थनगर द्वारा 05 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹ 34,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । दण्डित कराये जाने में एडीजीसी ईश्वर चन्द दूबे व न्यायालय पैरवीकार मुख्य आरक्षी जयनाथ चौहान थाना मिश्रौलिया का सराहनीय योगदान रहा ।

प्रेस नोट दिनांक 24.01.2023 थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व जयराम क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़, पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा आज दिनांक 24.01.2023 को आगामी राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत, शांति व्यवस्था सुरक्षा, अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु कस्बा शोहरतगढ़ में गड़ाकुल, पुलिस बूथ, इक्कावन तिराहा, प्रेम गली, रमजान गली, सब्जी मंडी, भारत माता चौक, गोलघर में थाना पर उपस्थित समस्त अधिकारी/कर्मचारी गण द्वारा दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ फ्लैग मार्च किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 24.01.2023 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 24.01.2023 को सड़क सुरक्षा माह के क्रम में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात देवी गुलाम के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में जाकर छात्र/छात्राओं को सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों की जानकारी दी गयी एवं पोस्टर पम्पलेट का वितरण किया गया तथा पी0ए0 सिस्टम,पोस्टर पम्पलेट आदि के माध्यम से साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा,बर्डपुर, कपिलवस्तु आदि स्थानों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटवाया गया एवं रिफ्लेक्टर चस्पा किया गया तथा यातायात नियम का पालन न करने वाले 23 वाहनों से 27500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके।

प्रेस नोट दिनांक 24-01-2023 थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर

थाना गोलहौरा पुलिस द्वारा महिला हेल्पडेक्स पर नियुक्त महिला आरक्षी के द्वारा थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 परिवार को बिखरने से बचाया गया।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर व सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व हरिश्चंद्र, क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन में व राहुल सिंह यादव, प्रभारी निरीक्षक गोलहौरा के नेतृत्व में आज दिनांक 24-01-2023 को आवेदिका श्रीमती संगीता पत्नी राजन साकिन हडहा थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थी के पति द्वारा प्रतिदिन प्रताड़ित किया जाता है इस प्रार्थना पत्र पर महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला आरक्षी प्रियंका द्वारा उसके पति राजन पुत्र तीरथ साकिन हडहा थाना गोलहौरा

जनपद सिद्धार्थनगर को बुलाकर महिला हेल्प डेस्क में बैठाकर सुलह समझौता कराकर 01 पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया ।-

निस्तारित पत्रावली का विवरण

01. संगीता पत्नी राजन साकिन हडहा थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर ।